



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 260 ] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 3, 1977/श्रावण 12, 1899

No. 260] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 3, 1977/SRAVANA 12, 1899

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

---

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 3rd August 1977

**G.S.R. 350(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts glass and glassware, falling under Item No. 23-A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and manufactured by a unit by mouth blowing or hand or foot pressing, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

2 Nothing contained in this notification shall apply if such unit manufactures also glass and glassware by a process other than that of mouth blowing, or hand/foot pressing.

[No. 265/77]

## वित्त संचालय

## (राजस्व विभाग)

## अधिसूचनाएँ

## केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1977

सांकांनि० 550 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 23-क के अन्तर्गत सम्मिलित शीशा और शीशों के सामान को, जिनका विनिर्माण किसी एकक द्वारा मुह से फुलाकर या हाथ पैर में दबाव डाल कर किया जाता है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

2. इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी यदि ऐसा एकक शीशे और शीशों के सामान का विनिर्माण मुह से फुलाकर, अथवा हाथ, पैर से दबाव डाल कर तैयार करने की प्रक्रिया से भिन्न किसी प्रक्रिया से भी करता है।

[सं० 265/77]

**G.S.R. 551(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts glass and glassware of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the sub-item specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of Item No. 23-A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and manufactured in a semi-automatic unit, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

THE TABLE

S No.	Sub-item No.	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(1)	Sheet glass and plate glass	Twenty-four per cent <i>ad valorem</i>
2	(2)	Laboratory glassware	Four per cent <i>ad valorem</i> .
3	(3)	Glass shells, glass globes and chimneys for lamps and lanterns.	Twelve per cent <i>ad valorem</i> .
4	(4)	Other glassware including tableware.	Twenty four per cent <i>ad valorem</i>

**Explanation.**—For the purpose of this notification, 'semi-automatic' unit means a unit in which the molten glass is transferred manually from—

(a) the furnace to the moulds ; or

(b) one mould to another mould for final shape and its removal from the mould

[No 266/77]

L. C. MITTAL, Dy. Secy.

सांकांनि० 551(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 23-क की उन उप-मदों के अधीन सम्मिलित, जो इसमें उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, शीशे और शीशे के सामान को, जिनका वर्णन उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, तथा जिनका विनिर्माण किसी अर्धस्वचालित एकक में किया जाना है, उनपर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

## सारणी

क्रम सं०	उप-मद सं०	वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(1)	चादरी शीशा और प्लेट शीशा	मूल्य का चौबीस प्रतिशत
2.	(2)	प्रयोगशाला के शीशे का सामान	मूल्य का चार प्रतिशत
3.	(3)	शीशे के शैल, शीशे के ग्लोब और लैम्पो और लाइटबो की चिमनिया ।	मूल्य का बारह प्रतिशत
4.	(4)	अन्य शीशे का सामान जिसमें टेबल सामान सम्मिलित है ।	मूल्य का चौबीस प्रतिशत

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, “अर्ध-स्वचालित” एकक से वह एकक अभिप्रेत है जिसमें पिघले हुए शीशे को हाथ से—

(क) भट्टी से सांचे तक; या

(ख) अन्तिम रूप देने के लिए एक सांचे में दूसरे सांचे तक और सांचे से हटाने के लिए,

स्थानान्तरित किया जाता है ।

[सं० 266/77]

एल० सी० मित्रल, उप-सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

